

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274]	दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 19, 2019/आश्विन 27, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 246
No. 274]	DELHI, SATURDAY, OCTOBER 19, 2019/ASVINA 27, 1941	[N.C.T.D. No. 246

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 सितम्बर, 2019

फा. सं. 531/आरटी/एमएएमसी-एलएनएच/2010-11/सीडी 000156655/1438.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 3532 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, सघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक प्रोफेसर गैर चिकित्सा (रेडिएशन फिजिक्स) के पद के लिये निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-** (क) इन नियमों को सहायक प्रोफेसर गैर चिकित्सा (रेडिएशन फिजिक्स) भर्ती नियमावली, 2019 कहा जाए।
(ख) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :-** कोई भी व्यक्ति,
 (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
 (ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :
 उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
6. **बचाव:-** इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	सहायक प्रोफेसर (गैर चिकित्सा) रेडिएशन फिजिक्स
2.	पदों की संख्या	:	1 *(2018) * इसमें परिवर्तन कार्यभार के आधार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स का स्तर -10, 56100-1,77,750 /-रु. (वेतन समूह-3 (15600-39,100 /-रु. ग्रेड पे 5400 /-रुपये पूर्व संशोधित)
5.	क्या पद चयन अथवा गैर चयन है।	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये पांच वर्ष तक शिथिलनीय) नोट: आयु सीमा निर्धारण के लिये अंतिम तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन के अनुसार होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी में एम.एस.सी. और रेडियोलॉजिकल फिजिक्स एवं एडवाइजरी डिवीजन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेन्टर, मुम्बई से एक वर्ष का डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी चिकित्सा में एम.एस.सी.। (ii) अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के पश्चात एमडी रेडियोथैरेपी विद्यार्थियों को तीन वर्षों का अध्यापन अनुभव टीप-1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। टीप-2 यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने

		वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: लागू नहीं
9.	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: एक वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: सीधी भर्ती द्वारा टीप:- पदधारी द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी रुग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी। क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ख) कालम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित, की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।
11.	यदि पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	: लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	: 'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ) :- (1) मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली – अध्यक्ष (2) प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली – सदस्य (3) डीन, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज – सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
जे. पी. शर्मा, उप सचिव (एचआर-मेडिकल)

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 17th September, 2019

F. No. 531/RT/MAMC-LNH/2010-11 CD000156655/1438.—In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home affair's notification number S.O. 3532 dated the 24th September, 1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi in consultation with the Union Public Service Commission is pleased to make the following recruitment rules to the post of Assistant Professor Non Medical (Radiation Physics) in the Department of Health and Family Welfare, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement** – (i) These rules may be called Assistant Professor Non Medical (Radiation Physics) Recruitment Rules, 2019.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Number of posts, classification and level in Pay matrix** -- The number of the said post, its classification and level in pay matrix, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to the these rules.
3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.** -- The method of recruitment to the said post and age limit, qualification and other matter connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualifications** -- No person,
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with a person;
 Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax** -- Where Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be order and for reasons to be recorded in writing, relax in consultation with the Union Public Service Commission for any of the provisions of these rules with respect in any class or category of persons.
6. **Saving** -- Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection post or non-selection post.
1.	2.	3.	4.	5.
Assistant Professor (Non Medical) Radiation Physics	01* (2018) * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 of Pay Matrix, Rs. 56,100-1,77,750/- (Pre-revised PB-3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay of Rs. 5400/)	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Education and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of Probation, if any.
6.	7.	8.	9.
Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertise by Union Public Service Commission.	[i] M.Sc. Physics from recognized University and one year Diploma in Radiological Physics from Radiological Physics & Advisory Division, Bhabha Atomic Research centre, Mumbai Or M.Sc. Medical Physics from Recognized University [ii] Three years Teaching Experience to MD Radiotherapy students, after obtaining requisite qualification. Note: 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise qualified. Note:2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to SCs or STs, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	1 year

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotions or by Deputation/Absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitments by Promotion/Deputation/Absorption, grades from which promotion/Deputation/Absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
10.	11.	12.	13.
By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or on long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one or more may be filled on deputation basis from the Officers of central Government:- [a] Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department, and [b] Possessing the educational qualification prescribed for recruits under column 7.	Not applicable.	Group 'A' Departmental Promotion Committee [for considering confirmation] consisting of:- [1] Chief Secretary, Government of National Capital of Territory of Delhi-Chairman, [2] Principal Secretary	Consultation of the Union Public Service Commission is necessary.

<p>(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on closing date of receipt of applications).</p>		<p>(Department of Health and Family Welfare), Government of National Capital Territory of Delhi - Member,</p> <p>[3] Dean, Maulana Azad Medical College-Member.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
J.P. SHARMA, Dy. Secy. (HR-MEDICAL)